

राजभाषा विभाग की जून, 2019 माह की मुख्य उपलब्धियां

- (i) देश के विभिन्न नगरों में 95 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया जिनमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में जारी कार्यकारी आदेशों के अनुपालन की स्थिति और उसमें सुधार के उपायों पर चर्चा की जाती है।
- (ii) विभाग में जून, 2019 माह में 70 शिकायतों का निपटान किया गया।
- (iii) हिंदी भाषा के 11465, हिंदी टंकण के 1926 तथा हिंदी आशुलिपि के 177 प्रशिक्षार्थियों सहित कुल 13568 अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य पूरा किया गया।
- (iv) दिनांक 10.06.2019 से 14.06.2019 तक 481वीं गहन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 34 अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया।
- (v) दिनांक 20 जून, 2019 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना के कार्मिकों के लिए अर्ध-कार्य दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 29 अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया।
- (vi) दिनांक 24.06.2019 से 28.06.2019 तक 482वीं गहन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 30 अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया।
- (vii) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकण के 57वें सत्र हेतु तीन दिवसीय व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- (viii) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा जून, 2019 माह में 04 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 86 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया।
- (ix) जून, 2019 में कुल 2,484 मानक पृष्ठों की अनूदित सामग्री विभिन्न मंत्रालयों / विभागों को प्रेषित की गई।
- (x) केंद्रीय सचिवालय राजभाषा संवर्ग के 40 कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों को वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के पद पर वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध नियमित पदोन्नति दी गई।
